

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर

पत्रांक.....**406**..... जगदीशपुर

दिनांक :- **15/05/2025**

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर

सेवा में,

अपर. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्रांडा), पटना।

विषय :-MR 3054 (New Maintenance Policy-2018) अंतर्गत पथ में निर्माण कार्यों का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **MR 3054 (New Maintenance Policy-2018)** अंतर्गत पथ में निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार **रु०—149.44000** लाख राशि की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जाए, ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

Amresh Kumar
15/5/25

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर

Kaul
14/5/25

FORM GFR 19A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of Utilization Certificate up to the month- May-2025

MR 3054 (New Maintenance Policy 2018)

S. No.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (in Lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR 3054 (New Maintenance Policy 2018)	---	5257.62173	Certified that Rs. 5257.62173 Lacs which was received during the year 2025-26 in favor of E.E., R. W.D(W), Division Jagdishpur Bihar & a sum of Rs. 4839.91625 lacs has been utilized for the purpose of MR 3054 (New Maintenance Policy 2018) schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balace of Rs 417.70548 lacs remaining unutilized at the end of the period under.

2. certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled! are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.

Kind of checks exercised-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer
- Construction material have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed

3. Physical Progress achieved:

- construction of Road Works
- Construction of CD Works

Handwritten signature
DAO

RWD (W) Div. Jagdishpur

Handwritten signature
15/5/25

Executive Engineer
RWD (W) Div, Jagdishpur

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Month-May 2025

Name of Division : Jagdishpur (Bhojpur)

S. No.	Package no.	Name of Block	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lac)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allotted Amount (I Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Requisition Against work done (in lac)	Remarks
						Length (in Km)	Amount (in Lac)	Initial Rectification with Surface Renewal (in lac)	5 years Routine Maintenance (in lac)										
1	RM/BH/JAG/23/0011	Jagdishpur	L036-T 02 to Basawna (VR36)	10401702036	6120/04.12.2023	2.500	109.756	76.20939	21.76595	09/MBD/2024-25 & Dt-02.11.2024	18.07.2025	—	2404	25 mm	5%	72.00000	72.00000	2.00000	Surface Complete
2	RM/BH/JAG/24/0003	Shahpur	Chamarpur To Bahoranpur	10401713001	6120/04.12.2023	1.150	37.219	26.51463	6.58100	04/MBD/2024-25 Dt-17.9.2024	16.06.2025	—	2491	25 mm	5%	0.00000	0.00000	26.51000	Surface Complete
3	RM/BH/JAG/24/0003	Shahpur	Shahpur Dhvari RWD Road Dhauri More To Char ghatariaagon	10401712024	6120/04.12.2023	2.100	97.161	70.09079	18.01515	04/MBD/2024-25 Dt-17.9.2024	16.06.2025	—	2548	25 mm	5%	0.00000	0.00000	70.09000	Surface Complete
4	RM/BH/JAG/24/0003	Shahpur	L031-Bharauli to Dalan Chapra (VR31)	10401702033	Lt. No. 6120 Dt. 04.12.2023	2.000	90.464	64.71028	16.64405	04/MBD/2024-25 Dt-17.9.2024	16.06.2025	—	2458.35	25 mm	5%	13.86874	13.86874	50.84000	Surface Complete
				Total														149.44000	

Divisional Account Officer
RWD (V) Division Jagdishpur

[Signature]

Executive Engineer
RWD Works Division, Jagdishpur


[Signature]
15/5/25

प्रमाण पत्र


शीर्षः— MR 3054 (New Maintenance Policy-2018)

योजनाः— L036-T 02 to Basawna (VR36)


1. मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है।
2. कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


30/12/24

कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा, जगदीशपुर


30/12/24


सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, जगदीशपुर


30/12/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर

File :D:\Bump Report\2024 Jagdishpur\2024-25\Shailesh kumar singh\L036-T 02 to Basawna (VR36) 2.500

Name of Customer :L036-T 02 to Basawna (VR36) . Name of Work/ Road :Shailesh Kumar Singh. Lab Job number



Sh
30/12/24

Sh
30/12/24
AT

Amresh Kumar
30/12/24
E.C

Name of Road-L036-T 02 to Basawna (VR36)

Name of Contractor-Shailesh Kumar Singh

Date Time Section Length Bumps Speed

OR

CATEGORY

IRI

Latitude -ongitude

Event

No.

in km

in mm

Rate

mm/km

U/V

ROAD

3.09

25.5565

84.4852

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:14:0

57

0.1

310

20.2

3100

2228 G

3.09

25.5565

84.4852

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:14:12

57

0.1

280

20.2

2800

2019 G

3.1

25.5567

84.4842

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:14:34

57

0.1

260

30.3

2600

1880 G

3.65

25.5563

84.4832

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:14:52

57

0.1

280

10.4

2800

2019 G

2.83

25.5572

84.4822

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:15:4

57

0.1

310

30.3

3100

2228 G

3.09

25.5576

84.4808

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:15:18

57

0.1

330

40.4

3300

2367 G

3.26

25.5580

84.4792

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:15:28

57

0.1

300

40.4

3000

2158 G

3

25.5583

84.4787

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:15:43

57

0.1

320

30.3

3200

2297 G

3.17

25.5586

84.4778

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:15:59

57

0.1

360

30.3

3600

2576 G

3.51

25.5588

84.4768

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:16:8

57

0.1

350

30.3

3500

2506 G

3.43

25.5589

84.4758

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:16:17

57

0.1

320

10.4

3200

2297 G

3.17

25.5591

84.4751

Curve

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:16:26

57

0.1

290

10.4

2900

2089 G

2.91

25.5593

84.4741

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:16:39

57

0.1

340

30.3

3400

3075 G

3.34

25.5594

84.4732

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:16:50

57

0.1

370

10.2

3700

3246 G

3.6

25.5594

84.4722

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:17:2

57

0.1

330

30.3

3300

2367 G

3.26

25.5598

84.4712

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:17:36

57

0.1

300

20.2

3000

2158 G

3

25.5595

84.4692

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:18:0

57

0.1

360

10.4

3600

3450 G

3.51

25.5583

84.4646

Curve

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:18:11

57

0.1

340

40.4

3400

2437 G

3.34

25.5583

84.4637

Normal

X = 3100

Y = 2228

Good

Average Poor

20/12/24 12:18:35

57

0.1

350